



# MINUTES OF MEETING OF SINGLE WINDOW CLEARANCE COMMITTEE

DATED:-06.01.2021

**Directorate of Industries,  
Government of Jharkhand**

दिनांक 06.01.2021 को पूर्वाह्न 12.30 बजे सचिव, उद्योग की  
अध्यक्षता में सिंगल विण्डो क्लीयरेंस कमिटी (Single Window  
Clearance Committee) बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति— संलग्न।

सचिव, उद्योग द्वारा समिति के उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए निदेशक, उद्योग को बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। निदेशक, उद्योग द्वारा समिति के सदस्यों को बैठक की कार्यवाही के संबंध में विस्तार से अवगत कराते हुए प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस बैठक में विचार किए गए आवेदनों की विवरणी निम्नवत है:-

1. झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के तहत MoU के 02 प्रस्ताव पर विचार किया गया।
2. झारखण्ड टेक्सटाइल, ऐपरेल एवं फूटवियर नीति-2016 के तहत अनुदान हेतु 01 आवेदन पर विचार किया गया।
3. झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के तहत अनुदान हेतु 02 आवेदन पर विचार किया गया।
4. झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 के तहत अनुदान हेतु 01 आवेदन पर विचार किया गया।

बैठक में विचार किए गए आवेदनों से संबंधित विस्तृत कार्यवाही निम्नवत है :-



# 1. MoU

## I. M/s ESL Steel Limited (Formerly Electrosteel Steel Limited), Bokaro

क्र०	विषय	प्रस्ताव / विवरणी
1.	पंजीकृत कार्यालय / कार्यालय	Vill- Siyaljori, Post- Jogidih, O.P.- Bangaria, PS- Chandankyari, Dist.- Bokaro-828303, Jharkhand, Incorporation Certificate No.- U27310JH2006PLC012663 Authorised Person: Mr. Pankaj Malhan, Whole Time Director & CEO Email : pankaj.malhan@vedanta.co.in Mobile : 7763806960
2.	कंपनी एवं ग्रुप कंपनी	M/s ESL Steel Limited (Formerly Electrosteel Steel Limited)
3.	प्रस्तावित उत्पादित सामग्री / सेक्टर	Wire rods/TMT/DI Pipes/Pig Iron/Billets
4.	प्रस्तावित क्षमता	Expansion from 1.5 MTPA to 3.0 MTPA
5.	प्रस्तावित स्थल	Siyaljori & Bhagabandh, Bokaro
6.	डायरेक्टर	1. Mr. Prasun Kumar Mukherjee, Non-Executive Independent Director 2. Mr. Pankaj Malhan, Whole Time Director 3. Miss Angusamy sumathi, Non-Executive Director 4. Mr. Mahendra Singh Mehta, Non-Executive Independent Director
7.	प्रस्तावित निवेश (रु० करोड़)	Rs. 3000 Cr. In first phase Rs. 2000Cr. In second phase
8.	प्रोजेक्ट फाईनान्स	Debt - 75% Equity - 25%
9.	प्रस्तावित प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष नियोजन	1000/5000
10.	भूमि की आवश्यकता	Within Existing Plant
11.	प्रस्तावित उत्पादन वर्ष	2022-23
12.	प्रस्ताव	JIIPP-2016 के Annexure-I की कंडिका-11 (iv) में प्रावधानित न्यूनतम निवेश तथा प्रत्यक्ष नियोजन के आधार पर उपरोक्त ईकाई की प्रस्तावित परियोजना अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी में होने के कारण इकाई के साथ MoU करने पर विचारार्थ।

**Decision Of SWCC:-** The representative of water resource department raised the issue of water tax outstanding dues of Rs. 53.23 Crore and representative of Commercial Tax Department raised the issue of outstanding dues Rs.117.05 crore to formerly existing company M/s **Electrosteel Steels Limited, Bokaro**. Representative of JSPCB informed that the unit still has not been issued Consent to Operate. Considering all above observation the committee recommended to put up matter before HPC for shinning of MoU with M/s ESL Steel Limited as per clause 10.5 Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy – 2016

## II. M/s Amalgam Resources Pvt. Ltd. West Singhbhum

क्र०	विषय	प्रस्ताव / विवरणी
1.	पंजीकृत कार्यालय/ कार्यालय	Avani Signature, 4 <sup>th</sup> Floor, Unit 401A, 91A/1, Park Street, Kolkata, West Bengal, India -700016. <b>Incorporation Certificate No.-</b> U13202WB2019PTC234930 <b>Authorised Person:</b> Mr. Smrutiranjana Dash, Vice President <b>Email :</b> pipelineproject@amalgamsteel.com <b>Mobile :</b> 9937180538
2.	कंपनी एवं ग्रुप कंपनी	M/s Amalgam Steel and Power Limited (Formerly Adhunik Alloys & Power Limited)
3.	प्रस्तावित उत्पादित सामग्री / सेक्टर	Iron Ore Beneficiation Plant and slurry pipe line
4.	प्रस्तावित क्षमता	7.5 MTPA Iron Ore Beneficiation Plant 2 X 5 MTPA Iron Ore Slurry Pipe Line system
5.	प्रस्तावित स्थल	Noamundi, Jharkhand
6.	प्रमोटर	1. Mr. Sourav Misra 2. Mr. Bharat Atha
7.	प्रस्तावित निवेश (रु० करोड़)	Rs. 1296.00 Cr.
8.	प्रोजेक्ट फाईनान्स	Debt - 66.66% Equity - 33.33 %
9.	प्रस्तावित प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष नियोजन	521/600
10.	भूमि की आवश्यकता	250 Acres
11.	प्रस्तावित उत्पादन वर्ष	Phase-I – July'2023 Phase-II – July'2026
12.	प्रस्ताव	JIIPP-2016 के Annexure-I की कंडिका-11 (iii) में प्रावधानित न्यूनतम निवेश तथा प्रत्यक्ष नियोजन के आधार पर उपरोक्त इकाई की प्रस्तावित परियोजना मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी में होने के कारण इकाई के साथ MoU करने पर विचारार्थ।

**Decision Of SWCC:-** The representative of water resource department raised the issue of water tax outstanding dues of Rs. 12.53 Crore to formerly existing company M/s Adhunik Alloys & Power Ltd., Kandra, Seraikela Kharsawan. Considering all above observation the committee recommended to put up matter before HPC for shinning of MoU with M/s Amalgam Resources Pvt. Ltd. as per clause 10.5 Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy – 2016




## II. Jharkhand Textile, Apparel & Footwear Policy -2016

### 1. Arvind Smart Textiles Limited: -

**Decision of High Powered Committee dated 23.11.2020:** The members present in the High Powered Committee analyzed the subsidy proposals mentioned above based on the documents provided by the unit and recommendation of SWCC. The HPC has recommended sanctioning eligible subsidies under different clauses of JTAFP-2016 as per details given below:-

Sl. No	Clause of JTAFP-2016	Eligible subsidy (In Rs.)
1.	8.2 Interest Subsidy (Nov'18 to Mar'19)	15,53,521/-
2.	8.8 Power Tariff & 8.13 Electricity Duty (Apr'19 to Nov'19)	15,81,161/- (Power Tariff) 28,289/- (Electricity Duty)
<b>TOTAL (1+2)</b>		<b>31,62,971/-</b>

For eligible Employment Generation Subsidy of Rs. 2,89,23,174/- & eligible Reimbursement to employer towards expenditure on ESI & EPF of Rs. 48,27,846/-, High Power Committee (HPC) directed SWCC to examine and re-analyze the proposals of these components with respect to wages paid to employees by the unit from their own resources & only after it's satisfaction, release the subsidy.

**Compliance of High Powered Committee:** As per query of HPC, the required details for approval of eligible Employment Generation Subsidy & eligible Reimbursement to employer towards expenditure on ESI & EPF subsidy are as below:-

Month	Total salary paid to employees by the unit	Total recommended Emp. Gen. Subsidy	Total salary paid to employees by company own resources
July'19	2,16,28,175	1,14,31,477	1,01,96,698
Aug'19	2,34,62,363	1,12,15,265	1,22,47,098
Sep'19	2,15,59,781	1,11,04,278	1,04,55,503
<b>TOTAL</b>	<b>6,66,50,319</b>	<b>3,37,51,020</b>	<b>3,28,99,299</b>

As per direction of HPC, the bank account details of the unit have been verified. Eligible Employment Generation Subsidy of Rs. 2,89,23,174/- & eligible Reimbursement to employer towards expenditure on ESI & EPF of Rs. 48,27,846/- may be approved by SWCC.

**Decision of Single Window Clearance Committee:** As per direction of HPC, the members present in the Single Window Clearance Committee analyzed the subsidy proposal based on the documents and information provided by the unit. For approval of subsidy for the month Sep'19 under clause 8.11(b) & (c) of JTAFP-2016, SWCC approved eligible subsidy of **Rs. 3,37,51,020/- (Three Crore Thirty Seven Lacs Fifty One Thousand and Twenty Rupees) Only** to M/s Arvind Smart Textiles Ltd., Ranchi.

### 3. Jharkhand industrial Investment Promotion

#### Policy-2016

**CPIS under JIIPP-2016 (MSME):-** Clause 7.1.1 of JIIPP 2016 provides that MSME Units shall be entitled to get CPIS for investments made in fixed capital investment. Subsidy under CPIS for MSME shall be admissible @ 20% of investment made in fixed capital investment. The Maximum ceiling under clause 7.1.5 is Rs. 2 crore.

**I. M/s Harsidhi Paper products Pvt.Ltd. East Singhbhoom, under JIIPP 2016:**

The DPR as submitted by the applicant stands approved by the financing Bank M/s Union Bank of India, Jamshedpur. The DPR cost is Rs.44.44 lakh for manufacturing of Paper & Paper product (Plate, Glass & cup). The actual capital investment as per CA certificate is Rs. 39.02 lakh. The means of finance is term loan of Rs.10.0 lakh, Equity Rs.20.0 lakh, Rs.18.50 lakh from relatives & Director.). The DoP of the Unit is w.e.f. 12.07.2018 for production of manufacturing of Paper & Paper product (Plate, Glass & cup).

The physical verification of Plant & machinery and payment verification was jointly conducted by GM, DIC and Hd. Qr. Team dated 14.10.2020 the eligible investment under P&M including electric installation is Rs.32.71 lakh out of which Rs.4.05 lakh is for purchase of DG set which is not eligible. The net balance amount of Rs.28.66 lakh is eligible investment.

The statutory compliance of EPF & ESIC Form 1.8. The unit has declared that EPF & ESIC is not applicable as manpower employed is 5.

The Lease agreement is for 10 years scheduled to expire on 20.05.2028. In response to query dt 24.12.2019, online response submitted stating that "Rent agreement will be renewed for another five (5) years after expiring of the present lease period i.e. 30.05.2028.

The Unit's production/Tax payment during the financial year 2018-19 is as below:

(Fig. in Lakh)

Year	Prodn Nos.	Electricity	GST	ITR AY 2019-20
18-19	292.34	1.87	0	Loss- 3.21



Check-List CPIS 26.02.2016		
1	Name of the Applicant	<b>M/s Harsidhi Paper product Pvt.Ltd.</b>
2	Address	East Singhbhum
3	Category of Unit	MSME,
4	New/Expansion	New
5	Date of commercial production	12.07.2018
6	Product under DoP	paper product (plate, glass cup)
7	Form 1.1(Board resolution)	Y
8	Form 1.2(Power of Attorney)	Y
9	Form 1.3 (Bank certificate, Loan & Investment)	Y
10	Form 1.4 (Statement of Prodn/Sales)	Y
11	Form 1.6 (Affidavit)	Y
12	Form 1.7 (a) CA certificate for Investment	Y
13	Form 1.8 (certificate from P.F. Commissioner)	Employment less than 5 person-self declaration
14	Form 1.8 (certificate from ESI Authority)	Employment less than 5 person
15	Form 1.13 (Means of Finance)	Y
16	ITR AY 2019-20	Y
17	CTO	Green Category
18	Factory License	Y valid up to 2029
19	Certificate of incorporation	Y
20	Audited Balance Sheet	Y

**Calculation of Permissible Subsidy under CPIS for MSME under 2016 Policy (Figures in Lakh Rupees)**

Details of capital Investment	DPR cost	CA certificate	joint inspection	Weight	Eligible
Land	Leased				
Building					
Plant & Machinery Exclusive of pollution Control	36.5	32.33	27.40	100	27.40
Electrification excluding DG set	4.05	2.15	1.26	100	1.26
others/DG set		4.54	4.05		
Total Capital Investment	40.55	39.02	32.71	20	28.66
Eligible @20%					5.73

(Rs. Five Lacs Seventy Three Thousand)

**Decision Of SWCC:-** The SWCC approved subsidy of Rs. 5.73 (Rs. Five Lacs Seventy Three Thousand) only as CPIS under JIIPP-2016 to **M/s Harsidhi Paper product Pvt. Ltd.,** East Singhbhum.




## II. INTEREST SUBSIDY UNDER JIIPP 2016

New MSME unit and non MSME sector unit shall be entitle to interest subsidy for timely payment @5% per annum on total loan availed from public financial institution/Bank for period if five year from the date of commencement of production subject to total maximum limit of

- Rs. 10 Lakh for Micro Enterprises
- Rs. 20 Lakh for small Enterprises
- Rs. 40 Lakh for Medium Enterprises
- Rs. 1 Crore for non-MSME Sector unit

Check-List Interest subsidy under JIIPP 2016			
1	Name of the Applicant		M/s Balajee Techno Polyfabs Pvt.Ltd
2	Address		Govindpur, Dhanbad
3	Category of Unit		MSME
4	New/Expansion		New
5	Date of commercial production		18.08.2017
6	Product under DoP		Wooven Sacks & HDPE/PP Fabric
7	Year of claim		2018-19
8	Form 1.1(Board resolution)		Y
9	Form 1.2(Power of Attorney)		Y
10	Form 1.3 (Bank certificate, Loan & Investment)		Y
11	Interest certificate		Y
12	Form 1.4 (Statement of Prodn/Sales)		Y
13	Form 1.6 (Affidavit)		Y
14	Form 1.8 (P.F.)		self-declaration-not applicable
	Form 1.8 (ESI.)		Y
15	CTO		31.03.2023
16	Factory License		2019
17	Audited Balance Sheet		Y 2018-19

T/loam di Rs.190 lakhg scheduled to be payble in 60 monthly instalments						
Scheduled date	Scheduled instalment	Dt. Of Actual payment	Derived (opn.- Closing)	Instalment as per bank	Closing balance, bank certificate	Interest subsidy @ 5% (Rs.)
31.03.2018					18543816.55	
31.05.18	316000	17.07.18	463802	500000	18080014.55	77266
10.06.18	316000	23.07.18	500000	500000	17580014.55	75333
11.07.18	316000	13.08.18	330634	500000	17249380.55	73250
11.08.18	316000	03.11.18	417343	900000	16832037.55	71872
10.09.18	316000	16.11.18	300000	300000	16532037.55	70133
11.10.18	316000	05.01.19	189519	500000	16342518.55	68883

*Signature*

*Signature*